

DU MA Buddhist Studies

Topic:- DU_J19_MA_BS

1) The famous site of Kashgar is located in this country

काशगर नामक प्रसिद्ध स्थल किस देश में स्थित है?

[Question ID = 14279]

1. Indonesia / इण्डोनेसिया [Option ID = 27116]
2. Cambodia / कम्बोडिया [Option ID = 27115]
3. Thailand / थाइलैण्ड [Option ID = 27114]
4. China / चीन [Option ID = 27113]

Correct Answer :-

- China / चीन [Option ID = 27113]

2) The famous site of Kanheri is located in the province of

कनहेरी नामक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है?

[Question ID = 14305]

1. Maharashtra / महाराष्ट्र [Option ID = 27219]
2. Jharkhand / झारखण्ड [Option ID = 27220]
3. Madhya Pradesh / मध्य प्रदेश [Option ID = 27218]
4. Odisha / ओडिशा [Option ID = 27217]

Correct Answer :-

- Odisha / ओडिशा [Option ID = 27217]

3) The Pañcavaggiya bhikkhus were named

पञ्चवगिय भिक्खुओं के यह नाम थे

[Question ID = 14323]

1. Koṇḍañña, Icchantika, Vappa, Mahānāma, Assaji / कोण्डञ्ज, इच्छंतक, वप्प, महानाम, अस्सजि [Option ID = 27292]
2. Koṇḍañña, Bhaddiya, Vappa, Mahānāma, Assaji / कोण्डञ्ज, भदिय, वप्प, महानाम, अस्सजि [Option ID = 27291]
3. Koṇḍañña, Bhaddiya, Upaka, Mahānāma, Assaji / कोण्डञ्ज, भदिय, उपक, महानाम, अस्सजि [Option ID = 27290]
4. Koṇḍañña, Bhaddiya, Vappa, Paññindriya, Assaji / कोण्डञ्ज, भदिय, वप्प, पञ्जिन्द्रय, अस्सजि [Option ID = 27289]

Correct Answer :-

- Koṇḍañña, Bhaddiya, Vappa, Paññindriya, Assaji / कोण्डञ्ज, भदिय, वप्प, पञ्जिन्द्रय, अस्सजि [Option ID = 27289]

4) The Jātakas mention this city as a great centre of learning where princes and sons of rich people came to study the three Vedas and eighteen sciences were taught

जातकों में इस नगर को विद्या का एक ऐसा महान केंद्र बताया है जहां राजकुमार व धनाढों के पुत्र तीन वेदों व अठारह विज्ञानों की शिक्षा ग्रहण करने आते थे

[Question ID = 14343]

1. Sāgala / सागल [Option ID = 27369]
2. Takkasilā / तक्कसिला [Option ID = 27370]
3. Indapaṭṭa / इंदपट्ट [Option ID = 27371]
4. Udumbara / उदुम्बर [Option ID = 27372]

Correct Answer :-

- Sāgala / सागल [Option ID = 27369]

5) Ṭankitamañca, located near Gayātittha, was the residence of

गयातित्थ के पास स्थित, तंकितमञ्च, किस का निवास स्थान था?

[Question ID = 14354]

1. Uruvela Kassapa / उरुवेल कस्सप [Option ID = 27416]
2. Nadi Kassapa / नदि कस्सप [Option ID = 27415]
3. Gayā Kassapa / गया कस्सप [Option ID = 27414]
4. Yakkha Sūciloma / यक्ख सूचिलोम [Option ID = 27413]

Correct Answer :-

- Yakkha Sūciloma / यक्ख सूचिलोम [Option ID = 27413]

6) Who was Bāhiya-Dārucīriya?

बाहिय-दारुचीरिय कौन था?

[Question ID = 14357]

1. An arahant who wore bark garments / एक अरहत् जो छाल का लबादा पहनता था। [Option ID = 27425]
2. An arahant who founded the Saṃmitiya sect / एक अरहत् जिस ने संमितीय संप्रदाय की स्थापना की थी। [Option ID = 27427]
3. An arahant who founded the Araññaka chapter / एक अरहत् जिस ने अरञ्जक निकाय की स्थापना की थी। [Option ID = 27428]
4. An arahant who accepted food only in his hands / एक अरहत् जो केवल अपने हाथों में ही भोजन ग्रहण करता था। [Option ID = 27426]

Correct Answer :-

- An arahant who wore bark garments / एक अरहत् जो छाल का लबादा पहनता था। [Option ID = 27425]

7) Which among the following is not a part of the Three Characteristics of Buddhism?

बौद्ध धर्म के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रकृति विश्व के तीन लक्षणों में से नहीं है।

[Question ID = 14375]

1. Anātman / अनात्मन् [Option ID = 27500]
2. Nitya / नित्य [Option ID = 27499]
3. Dukkha / दुःख [Option ID = 27498]
4. Anitya / अनित्य [Option ID = 27497]

Correct Answer :-

- Anitya / अनित्य [Option ID = 27497]

8) The Buddha spent his first *vassāvāsa* at

बुद्ध ने अपनी पहली वस्सावास कहाँ बिताई थी?

[Question ID = 14356]

1. Ambavanasaṇḍa / अम्बवनसण्ड [Option ID = 27422]
2. Laṭṭhivanasaṇḍa / लट्ठिवनसण्ड [Option ID = 27421]
3. Andhakavanasaṇḍa / अंधकवनसण्ड [Option ID = 27423]
4. Kappāsikavanasaṇḍa / कप्पासिकवनसण्ड [Option ID = 27424]

Correct Answer :-

- Laṭṭhivanasaṇḍa / लट्ठिवनसण्ड [Option ID = 27421]

9) The Buddha's mother Māyā was born at

बुद्ध की माँ माया यहाँ पैदा हुई थीं

[Question ID = 14283]

1. Devadaha / देवदह [Option ID = 27129]
2. Asitañjana / असितंजन [Option ID = 27132]
3. Kapilavṭṭhu / कपिलवस्तु [Option ID = 27130]
4. Pippalivana / पिप्पलिवन [Option ID = 27131]

Correct Answer :-

- Devadaha / देवदह [Option ID = 27129]

10) Cremated remains of the Buddha was divided into these divisions

बुद्ध की अस्थियों को इतने भागों में बांटा गया था

[Question ID = 14317]

1. Eighteen / अठारह [Option ID = 27265]
2. Six / छः [Option ID = 27267]
3. Eight / आठ [Option ID = 27266]

4. Eighty four / चौरासी [Option ID = 27268]

Correct Answer :-

• Eighteen / अठारह [Option ID = 27265]

11) Kaṁkhāvītaṇi is the commentary on

कंखावितरणि इस ग्रंथ की अट्टकथा है

[Question ID = 14347]

1. Pātimokkha / पातिमोख [Option ID = 27388]
2. Aṅguttaranikāya / अंगुत्तरनिकाय [Option ID = 27387]
3. Suttanipāta / सुत्तनिपात [Option ID = 27385]
4. Saṁyuttanikāya / संयुत्तनिकाय [Option ID = 27386]

Correct Answer :-

• Suttanipāta / सुत्तनिपात [Option ID = 27385]

12) The term "upacchedaka-kamma" may be defined as

“उपच्छेदिक-कम्म” शब्दावली की परिभाषा है

[Question ID = 14360]

1. destruction of the effect of bad deeds. / बुरे कार्यों के असर का नाश। [Option ID = 27437]
2. destruction of the effect of good deeds. / अच्छे कार्यों के असर का नाश। [Option ID = 27439]
3. deeds whose retribution is instantaneous / ऐसे कार्यों जिनका असर तत्कालिक होता है। [Option ID = 27440]
4. deeds that carry no retribution. / ऐसे कार्य जिनका कोई प्रतिफल नहीं होता। [Option ID = 27438]

Correct Answer :-

• destruction of the effect of bad deeds. / बुरे कार्यों के असर का नाश। [Option ID = 27437]

13) Sāriputta was the disciple of

सारिपुत्त इनके शिष्य थे

[Question ID = 14308]

1. Saṁjaya Velatthiputta / संजय वेलट्ठिपुत्त [Option ID = 27232]
2. Lord Buddha / बुद्ध [Option ID = 27230]
3. Lord Mahāvīra / महावीर [Option ID = 27229]
4. Nigaṅṭhā Nātaputta / निगंठु नाथपुत्त [Option ID = 27231]

Correct Answer :-

• Lord Mahāvīra / महावीर [Option ID = 27229]

14) The *Theragāthā*, the *Therīgāthā*, the *Buddhavaṃsa*, and the *Dhammapada* form part of बौद्ध ग्रंथों में थेरगाथा, थेरीगाथा, बुद्धवंस एवं धम्मपद किस का भाग हैं-

[Question ID = 15457]

1. Majjhima Nikāya / मज्झिम निकाय [Option ID = 31826]
2. Khuddaka Nikāya / खुदक निकाय [Option ID = 31827]
3. Dīgha Nikāya / दीघ निकाय [Option ID = 31828]
4. Aṅguttara Nikāya / अंगुत्तर निकाय [Option ID = 31825]

Correct Answer :-

- Aṅguttara Nikāya / अंगुत्तर निकाय [Option ID = 31825]

15) In the Pāli-based tradition, the Bodhirukkha is considered as the

पालि-आधारित परम्परा में बोधिरुख को यह माना जाता है।

[Question ID = 14298]

1. Nikhammanābhi / निखम्मनाभि [Option ID = 27191]
2. Uṇṇanābhi / उण्णनाभि [Option ID = 27190]
3. Paṭhavīnābhi / पथवीनाभि [Option ID = 27192]
4. Mahāpabbatanābhi / महापब्बतनाभि [Option ID = 27189]

Correct Answer :-

- Mahāpabbatanābhi / महापब्बतनाभि [Option ID = 27189]

16) According to the *Dasaratha Jātaka*, Rāma son of Dasaratha, was born in

दसरथ जातक के अनुसार, दसरथ के सपुत्र राम का जन्म इस नगर में हुआ था

[Question ID = 14324]

1. Ayodhyā / अयोध्या [Option ID = 27294]
2. Bārāṇasī / बाराणसी [Option ID = 27293]
3. Sāketa / साकेत [Option ID = 27295]
4. Dasarathapurī / दसरथपुरी [Option ID = 27296]

Correct Answer :-

- Bārāṇasī / बाराणसी [Option ID = 27293]

17) According to the *Mahāparinibbāna Sutta*, after the *Mahāparinibbāna* of the Buddha the relics were divided into eight parts by

महापरिनिर्वाण सुत्त के अनुसार, महापरिनिर्वाण के बाद बुद्ध के अवशेषों को इन्होंने आठ भागों में बांटा था

[Question ID = 14338]

1. A sudda called Dhātusena / धातुसेन नामक एक सुद्ध [Option ID = 27350]

2. A sudda called Dhātubhāgī / धातुभागी नामक एक सुद्ध [Option ID = 27352]

3. A brāhmaṇa called Doṇa / दोण नामक एक ब्राह्मण [Option ID = 27349]

4. A brāhmaṇa called Kasi Bhāradvāja / कसिभारद्वाज नामक एक ब्राह्मण [Option ID = 27351]

Correct Answer :-

• A brāhmaṇa called Doṇa / दोण नामक एक ब्राह्मण [Option ID = 27349]

18) Before attaining Nirvāṇa, the Buddha had taken his last meal at the house of

महापरिनिर्वाण के पहले भगवान बुद्ध ने किसके घर पर अपना आखिरी भोजन ग्रहण किया था?

[Question ID = 14364]

1. Kasi Bhāradvāja, the Brāhmaṇa / ब्राह्मण कसी भारद्वाज [Option ID = 27454]

2. Anāthapiṇḍika, the Businessman / सेठ अनाथपिण्डक [Option ID = 27456]

3. Ambapālī, the Courtesan / नर्तकी अम्बपाली [Option ID = 27455]

4. Cunda, the Black Smith / चुन्द लोहार [Option ID = 27453]

Correct Answer :-

• Cunda, the Black Smith / चुन्द लोहार [Option ID = 27453]

19) In the Pāli Tipiṭaka, Uruvelā is mentioned as a

पालि तिपिटक में उरुवेला को यह कहा गया है

[Question ID = 14294]

1. Gāmanigama / गामनिगम [Option ID = 27173]

2. Nagara / नगर [Option ID = 27174]

3. Puṭabhedanaṃ / पुटभेदनं [Option ID = 27175]

4. Kuṭi / कुटि [Option ID = 27176]

Correct Answer :-

• Gāmanigama / गामनिगम [Option ID = 27173]

20) What is the correct sandhi of "pabbate+ahaṃ"?

“पब्बते+अहं” की सही संधि क्या है?

[Question ID = 14362]

1. pabbatehaṃ / पब्बतेहं [Option ID = 27447]

2. pabbateahaṃ / पब्बतेअहं [Option ID = 27448]

3. pabbatyāhaṃ / पब्बत्याहं [Option ID = 27445]

4. pappatāhaṃ / पब्बताहं [Option ID = 27446]

Correct Answer :-

- pabbatyāham / पब्बत्याहं [Option ID = 27445]

21) The Jātakas mention this city as the capital (*rājadhāni*)of the kingdom of Gandhāra

जातकों में इस नगर को गंधार की राजधानी बताया गया है

[Question ID = 14342]

1. Sāgala / सागल [Option ID = 27365]
2. Takkasilā / तक्कसिला [Option ID = 27366]
3. Indapaṭṭa / इंदपट्ट [Option ID = 27367]
4. Udumbara / उदुम्बर [Option ID = 27368]

Correct Answer :-

- Sāgala / सागल [Option ID = 27365]

22) During the reign of which king did the development of Indo-Greek Buddhist art take place?

भारतीय-यूनानी बौद्धकला किस राजा के शासनकाल में विकसित हुई?

[Question ID = 14368]

1. Harṣa / हर्ष [Option ID = 27470]
2. Candragupta / चन्द्रगुप्त [Option ID = 27472]
3. Kaniṣka / कनिष्क [Option ID = 27471]
4. Aśoka / अशोक [Option ID = 27469]

Correct Answer :-

- Aśoka / अशोक [Option ID = 27469]

23) Immediately after enlightenment, which god dissuaded the Buddha from seeking a teacher for himself?

बेधि प्राप्ति के तुरन्त बाद, किस देव ने बुद्ध को अपने लिए एक गुरु ढूँढने से रोका?

[Question ID = 14322]

1. Inda / इंद [Option ID = 27288]
2. Sakka / सक्क [Option ID = 27286]
3. Brahmā Sahampati / ब्रह्मा सहम्पति [Option ID = 27287]
4. Vessavana / वेस्सवन [Option ID = 27285]

Correct Answer :-

- Vessavana / वेस्सवन [Option ID = 27285]

24) This city is also known as Brahmavaddhana, Ketumatī, Molinī, Pupphavatī, Ramma, Surundhana, and Sudassana in the Jātakas

जातकों में इस नगर को ब्रह्मवद्धन, केतुमती, मोलिनी, पुफवती, रम्म, सुरुंधन, व सुदस्सन जैसे कई नामों से जाना गया है

[Question ID = 14339]

1. Campā / चम्पा [Option ID = 27353]
2. Bārāṇasī / बाराणसी [Option ID = 27356]
3. Sāvattthī / सावत्थी [Option ID = 27354]
4. Rājagaha / राजगह [Option ID = 27355]

Correct Answer :-

- Campā / चम्पा [Option ID = 27353]

25) Tebhātika-Jaṭilās lived in the region of

तेभातिक-जटिल इस क्षेत्र में रहते थे

[Question ID = 15463]

1. Gayā / गया [Option ID = 31849]
2. Rājagaha / राजगह [Option ID = 31850]
3. Sāvattthī / सावत्थी [Option ID = 31851]
4. vārāṇasī / वाराणसी [Option ID = 31852]

Correct Answer :-

- Gayā / गया [Option ID = 31849]

26) The number of vowels in Pāli is

पालि में स्वरों की संख्या है-

[Question ID = 14314]

1. Six / छः [Option ID = 27254]
2. Eight / आठ [Option ID = 27255]
3. Ten / दस [Option ID = 27256]
4. Four / चार [Option ID = 27253]

Correct Answer :-

- Four / चार [Option ID = 27253]

27) Chronological order of the three parts of the *Nidāna-kathā* is

निदान-कथा के विभिन्न भागों का कालानुक्रम इस प्रकार है

[Question ID = 14355]

1. Dūre-nidāna, Santike-nidāna, Avidūre-nidāna. / दूरे-निदान, सन्तिके-निदान, अविदूरे-निदान। [Option ID = 27418]
2. Dūre-nidāna, Avidūre-nidāna, Santike-nidāna. / दूरे-निदान, अविदूरे-निदान, सन्तिके-निदान। [Option ID = 27417]
3. Santike-nidāna, Avidūre-nidāna, Dūre-nidāna. / सन्तिके-निदान, अविदूरे-निदान, दूरे-निदान। [Option ID = 27420]
4. Avidūre-nidāna, Dūre-nidāna, Santike-nidāna. / अविदूरे-निदान, दूरे-निदान, सन्तिके-निदान। [Option ID = 27419]

Correct Answer :-

- Dūre-nidāna, Avidūre-nidāna, Santike-nidāna. / दूरे-निदान, अविदूरे-निदान, सन्तिके-निदान। [Option ID = 27417]

28) To commemorate which event of the life of the Buddha did King Aśoka instal the Rummindei Pillar?

अशोक ने रुमिनदेई स्तम्भ बुद्ध की किस स्मृति में स्थापित किया?

[Question ID = 14374]

1. Birth / जन्म [Option ID = 27493]
2. First Sermon / प्रथम उपदेश [Option ID = 27495]
3. Enlightenment / बोधि [Option ID = 27494]
4. Death / मृत्यु [Option ID = 27496]

Correct Answer :-

- Birth / जन्म [Option ID = 27493]

29) To which country did Aśoka send his son Mahendra as a Dhammadūta?

अशोक ने अपने पुत्र महेन्द्र को किस देश में धम्मदूत बना कर भेजा?

[Question ID = 14369]

1. Burma / बर्मा [Option ID = 27475]
2. Thailand / थाईलैंड [Option ID = 27474]
3. Sri Lanka / श्रीलंका [Option ID = 27473]
4. China / चीन [Option ID = 27476]

Correct Answer :-

- Sri Lanka / श्रीलंका [Option ID = 27473]

30) Mādhyaṃaka philosopher Āryadeva was a disciple of

माध्यमक दर्शन-शास्त्री आर्यदेव इन के शिष्य थे

[Question ID = 14321]

1. Dharmakīrti / धर्मकीर्ति [Option ID = 27283]
2. Asaṅga / असंग [Option ID = 27281]
3. Nāgarjūna / नागार्जुन [Option ID = 27282]
4. Kamalśīla / कमलशील [Option ID = 27284]

Correct Answer :-

- Asaṅga / असंग [Option ID = 27281]

31) The udumbara-khādikā method is often quoted as a Buddhist example of avoidance of

उदुम्बर-खादिका विधि को अक्सर बौद्धों की ओर से इससे दूर रहने की एक उदाहरण के रूप में दिया जाता है।

[Question ID = 14306]

1. hiṃsā / हिंसा [Option ID = 27221]
2. Greed / लालच [Option ID = 27223]
3. theft / चोरी [Option ID = 27222]
4. wastefulness / अपव्यय [Option ID = 27224]

Correct Answer :-

- hiṃsā / हिंसा [Option ID = 27221]

32) A Buddhist layman in Pāli is called

पालि में साधारण बौद्ध अनुयायी को कहा जाता है

[Question ID = 14365]

1. Jajamāna / यजमान [Option ID = 27458]
2. Upasāka / उपासक [Option ID = 27459]
3. Bhakta / भक्त [Option ID = 27460]
4. Bhante / भन्ते [Option ID = 27457]

Correct Answer :-

- Bhante / भन्ते [Option ID = 27457]

33) In which year of king Asoka's reign was the Third Buddhist Council completed?

तृतीय बौद्ध संगीति राजा असोक के राज्यकाल के किस वर्ष में संपन्न हुई थी?

[Question ID = 14277]

1. 36th / छत्तीसवें [Option ID = 27108]
2. 17th / सत्रहवें [Option ID = 27106]
3. 27th / सत्ताईसवें [Option ID = 27107]
4. 13th / तेरहवें [Option ID = 27105]

Correct Answer :-

- 13th / तेरहवें [Option ID = 27105]

34) To whom was the *Dhammacakkapavattana Sutta* preached by the Buddha?

बुद्ध ने धम्मचक्रपवत्तन सुत्त का प्रवचन किस को दिया था?

[Question ID = 14333]

1. Ājivikas / आजीविकों को [Option ID = 27330]
2. Pañcavaggiyas / पञ्चवगियों को [Option ID = 27332]
3. Nigaṇṭhas / निगंटों को [Option ID = 27331]
4. Jaṭilas / जटिलों को [Option ID = 27329]

Correct Answer :-

- Jaṭilas / जटिलों को [Option ID = 27329]

35) The Sutta Piṭaka consists of the following five Nikāyas

निम्नलिखित में से कौन से पाँच निकाय सुत्तपिटक में शामिल हैं-

[Question ID = 14367]

1. Aṅguttara, Dīgha, Majjhima, Saṃyutta, Vinaya / अंगुत्तर, दीघ, मज्झिम, संयुत्त, विनय [Option ID = 27465]
2. Aṅguttara, Dhammapada, Majjhima, Saṃyutta, Khuddaka / अंगुत्तर, धम्मपद, मज्झिम, संयुत्त, खुद्दक [Option ID = 27466]
3. Aṅguttara, Jātakas, Majjhima, Saṃyutta, Khuddaka / अंगुत्तर, जातक, मज्झिम, संयुत्त, खुद्दक [Option ID = 27467]
4. Dīgha, Majjhima, Saṃyutta, Aṅguttara, Khuddaka. / दीघ, मज्झिम, संयुत्त, अंगुत्तर, खुद्दक [Option ID = 27468]

Correct Answer :-

- Aṅguttara, Dīgha, Majjhima, Saṃyutta, Vinaya / अंगुत्तर, दीघ, मज्झिम, संयुत्त, विनय [Option ID = 27465]

36) What was obtained by Tapussa and Bhallika from the Buddha as an object of worship?

तपुस्स व भल्लिक ने बुद्ध से पूजा की वस्तु के रूप में क्या प्राप्त किया?

[Question ID = 14358]

1. His broken tooth / उनका टूटा हुआ दांत [Option ID = 27432]
2. The kusa-grass on which he had attained bodhi / वह कुस-घास जिस पर उन्होंने बोधि प्राप्त की थी [Option ID = 27429]
3. His paired nails / उनके काटे हुए नाखून [Option ID = 27430]
4. Some of his hair / उनके कुछ केस [Option ID = 27431]

Correct Answer :-

- The kusa-grass on which he had attained bodhi / वह कुस-घास जिस पर उन्होंने बोधि प्राप्त की थी [Option ID = 27429]

37) Buddhaghosa composed

बुद्धघोष ने इस की रचना की थी

[Question ID = 14313]

1. Grammar Books / व्याकरण की पुस्तकें [Option ID = 27250]
2. Tīkā Literature / टीका साहित्य [Option ID = 27251]
3. Anuṭṭikā Literature / अनुटीका साहित्य [Option ID = 27252]
4. Aṭṭhakathā Literature / अट्टकथा साहित्य [Option ID = 27249]

Correct Answer :-

- Aṭṭhakathā Literature / अट्टकथा साहित्य [Option ID = 27249]

38) Tebhātika-Jaṭilās were worshippers of

तेभातिक जटिल इस की पूजा करते थे।

[Question ID = 14288]

1. Petā-Petī / पेटा-पेती [Option ID = 27150]
2. Animals / पशु [Option ID = 27151]
3. Fire / अग्नि [Option ID = 27152]
4. Cetiya / चेत्य [Option ID = 27149]

Correct Answer :-

- Cetiya / चेत्य [Option ID = 27149]

39) Where was the *Mahāparinibbāna Suttanta* preached by the Buddha?

बुद्ध ने महापरिनिब्बान सुत्त का प्रवचन कहाँ दिया था?

[Question ID = 14301]

1. In the Gijjhakūta at Rājagaha / राजगह के समीप गिज्झकूट में [Option ID = 27202]
2. In the Ambalaṭṭhikavana near Rājagaha / राजगह के समीप अम्बलट्टिकवन में [Option ID = 27203]
3. In the Jetavana at Sāvathī / सावत्थी के जेतवन में [Option ID = 27201]
4. On the Pitthipāsāṇa at Gayāsisa / गयासीस के पिथिपासाण पर [Option ID = 27204]

Correct Answer :-

- In the Jetavana at Sāvathī / सावत्थी के जेतवन में [Option ID = 27201]

40) Where was the *Āditta-Pariyāya Sutta* preached by the Buddha?

बुद्ध ने आदित्त-परियाय सुत्त का प्रवचन कहाँ दिया था?

[Question ID = 14359]

1. In the Ambalaṭṭhikavana near Rājagaha / राजगह के समीप अम्बलट्टिकवन में [Option ID = 27435]
2. In the Veluvana at Rājagaha / राजगह के समीप वेलुवन में [Option ID = 27434]
3. In the Jetavana at Sāvathī / सावत्थी के जेतवन में [Option ID = 27433]
4. On the Pitthipāsāṇa at Gayāsisa / गयासीस के पिथिपासाण पर [Option ID = 27436]

Correct Answer :-

- In the Jetavana at Sāvathī / सावत्थी के जेतवन में [Option ID = 27433]

41) Where was the First Buddhist Council held?

प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित की गई थी?

[Question ID = 14300]

1. Kaśmīra / कश्मीर [Option ID = 27197]
2. Vesālī/Vaiśālī / वेसाली/वैशाली [Option ID = 27198]

3. Pāṭaliputta/Pāṭaliputra / पाटलीपुत्र/पाटलीपुत्र [Option ID = 27199]

4. Rājagaha/Rājagṛha / राजगह/राजगृह [Option ID = 27200]

Correct Answer :-

• Kaśmīra / कश्मीर [Option ID = 27197]

42) Where did the Buddha attain Bodhi?

बुद्ध ने बोधि कहां प्राप्त की थी?

[Question ID = 14291]

1. Kapilavastu / कपिलवस्तु [Option ID = 27163]

2. Kuśinagara / कुशीनगर [Option ID = 27164]

3. Bodhagayā / बोद्धगया [Option ID = 27161]

4. Devadaha / देवदह [Option ID = 27162]

Correct Answer :-

• Bodhagayā / बोद्धगया [Option ID = 27161]

43) Where is Ming-yun Stūpa is situated?

मिंगयुन स्तूप कहाँ स्थित है?

[Question ID = 14372]

1. Java / जावा [Option ID = 27486]

2. Nepal / नेपाल [Option ID = 27488]

3. Myanmar / म्यांमार [Option ID = 27487]

4. Sri Lanka / श्रीलंका [Option ID = 27485]

Correct Answer :-

• Sri Lanka / श्रीलंका [Option ID = 27485]

44) The observance of eight *Garudhammās* mandatory for

इन के लिए अट्ट गरुधम्मा का पालन अनिवार्य है

[Question ID = 14282]

1. Upāsakas / उपासक [Option ID = 27127]

2. Monks / भिक्षु [Option ID = 27125]

3. Nuns / भिक्षुणियां [Option ID = 27126]

4. Upāsikas / उपासिकाएं [Option ID = 27128]

Correct Answer :-

• Monks / भिक्षु [Option ID = 27125]

45)

Aṅgulimāla Sutta forms part of

अंगुलिमाल सुत्त इस ग्रंथ का भाग है

[Question ID = 14319]

1. Aṅguttara Nikāya / अंगुत्तरनिकाय [Option ID = 27276]
2. Majjhima Nikāya / मज्झिमनिकाय [Option ID = 27274]
3. Dīgha Nikāya / दीघनिकाय [Option ID = 27273]
4. Saṃyutta Nikāya / संयुत्तनिकाय [Option ID = 27275]

Correct Answer :-

- Dīgha Nikāya / दीघनिकाय [Option ID = 27273]

46) The White Horse Monastery was built in

श्वेत अश्व विहार यहां पर बनवाया गया था

[Question ID = 14281]

1. Nanjing / नानचिंग [Option ID = 27123]
2. Changan / छांगआन [Option ID = 27122]
3. Loyang / लोयांग [Option ID = 27121]
4. Lanzhou / लानचौड [Option ID = 27124]

Correct Answer :-

- Loyang / लोयांग [Option ID = 27121]

47) Shortly after Enlightenment, an ājīvika named Upaka asked the Buddha if he was a/an

बोधि प्राप्ती के कुछ समय बाद, उपक नामक आजीवक ने बुद्ध से पूछा कि क्या वे थे।

[Question ID = 14299]

1. Tathāgata / तथागत [Option ID = 27195]
2. Buddha / बुद्ध [Option ID = 27193]
3. Anantajina / अनंतजिन [Option ID = 27194]
4. Bodhisatta / बोधिसत्त [Option ID = 27196]

Correct Answer :-

- Buddha / बुद्ध [Option ID = 27193]

48) Shortly after attaining enlightenment, the Buddha had an encounter with a brāhmaṇa who is known as

बोद्धि प्राप्त करने के कुछ समय पश्चात, बुद्ध का सामना एक ब्राह्मण से हुआ जिसे इस नाम से जाना जाता है

[Question ID = 14350]

1. Huhūnkajātika / हुहुंकजातिक [Option ID = 27398]
2. Kasibhāradvāja / कसिभारद्वज [Option ID = 27397]
3. Tebhātika Jaṭila / तेभातिक जटिल [Option ID = 27400]

4. Sumsumāraka / सुसुमारक [Option ID = 27399]

Correct Answer :-

- Kasibhāradvāja / कसिभारद्वाज [Option ID = 27397]

49) The caste system in Buddhism is based on

बौद्ध धर्म में जाति व्यवस्था इस पर आधारित है

[Question ID = 14289]

1. Kamma / कम्म [Option ID = 27153]
2. Vaṇṇa / वण्ण [Option ID = 27154]
3. Birth / जन्म [Option ID = 27155]
4. Kula / कुल [Option ID = 27156]

Correct Answer :-

- Kamma / कम्म [Option ID = 27153]

50) The subject-matter of the *Dīpavaṃsa* is

दीपवंस पुस्तक की विषयवस्तु है

[Question ID = 14312]

1. Polity / राज्यव्यवस्था [Option ID = 27247]
2. History / इतिहास [Option ID = 27245]
3. Geography / भूगोल [Option ID = 27246]
4. Economics / अर्थशास्त्र [Option ID = 27248]

Correct Answer :-

- History / इतिहास [Option ID = 27245]

51) Which pāramitā was performed quintessentially by Vessantara leading to his birth in Tuṣita?

वेसंतर द्वारा कौन सी पारमिता विशिष्ट रूप में पूरी करने के पश्चात उनका जन्म तुषित में हुआ?

[Question ID = 14296]

1. Dāna / दान [Option ID = 27181]
2. Paññā / पञ्जा [Option ID = 27183]
3. Mettā / मत्ता [Option ID = 27184]
4. Sila / सील [Option ID = 27182]

Correct Answer :-

- Dāna / दान [Option ID = 27181]

52) Which of these incidents did not happen in the life of the Buddha on the day of full Moon?

इन में से बुद्ध के जीवन की कौन-सी घटना पूर्णिमा के दिन नहीं घटी?

[Question ID = 14373]

1. Buddhahood / बुद्धत्व [Option ID = 27491]
2. Birth / जन्म [Option ID = 27489]
3. Renunciation / गृहत्याग [Option ID = 27492]
4. Death / मृत्यु [Option ID = 27490]

Correct Answer :-

- Birth / जन्म [Option ID = 27489]

53) Which Pacittiya rule prohibits the taking of solid food by monks after midday?

किस पाचित्तिय नियम के तहत, भिक्षुओं के लिए दुपहर के बाद ठोस भोजन खाना मना है?

[Question ID = 14329]

1. Pacittiya 51 / पाचित्तिय 51 [Option ID = 27316]
2. Pacittiya 31 / पाचित्तिय 31 [Option ID = 27313]
3. Pacittiya 35 / पाचित्तिय 35 [Option ID = 27314]
4. Pacittiya 37 / पाचित्तिय 37 [Option ID = 27315]

Correct Answer :-

- Pacittiya 31 / पाचित्तिय 31 [Option ID = 27313]

54) The complete year-wise account of the vassāvāsas spent by the Buddha is available in

बुद्ध द्वारा व्यतीत की गई विभिन्न वस्सावासों का वर्षानुसार ब्योरा इस ग्रंथ में दिया गया है

[Question ID = 15462]

1. Visuddhimagga / विसुद्धिमग्ग [Option ID = 31848]
2. Madhuratthavilāsini / मधुरत्थविलासिनी [Option ID = 31845]
3. Abhidhammāvātāra / अभिधम्मवतार [Option ID = 31847]
4. Samantapāsādikā / समंतपासादिका [Option ID = 31846]

Correct Answer :-

- Madhuratthavilāsini / मधुरत्थविलासिनी [Option ID = 31845]

55) The Visuddhimagga was authored by

विसुद्धिमग्ग के लेखक थे

[Question ID = 14345]

1. Dhammakitti / धम्मकित्ति [Option ID = 27379]
2. Buddhadatta / बुद्धदत्त [Option ID = 27378]
3. Buddhaghosa / बुद्धघोष [Option ID = 27377]
4. Dignāga / दिग्नाग [Option ID = 27380]

Correct Answer :-

- Buddhaghosa / बुद्धघोष [Option ID = 27377]

56) In which *varṇa* was the Buddha born?

बुद्ध का जन्म किस वर्ण में हुआ था-

[Question ID = 14366]

1. Vaiśya/Vessa / वैश्य/वेस्स [Option ID = 27463]
2. Kṣatriya/Khattiya / क्षत्रिय/खत्तिय [Option ID = 27462]
3. Brāhmaṇa / ब्राह्मण [Option ID = 27461]
4. Sudra/Sudda / शुद्र/सुद्द [Option ID = 27464]

Correct Answer :-

- Brāhmaṇa / ब्राह्मण [Option ID = 27461]

57) The last meal of the Buddha was

बुद्ध का अन्तिम भोजन क्या था?

[Question ID = 14304]

1. Sūkarakanda / सूकरकंद [Option ID = 27214]
2. Sūkarabhojana / सूकरभोजन [Option ID = 27215]
3. Sūkaramaddava / सूकरमद्व [Option ID = 27216]
4. Sūkaramaṃsa / सूकरमंस [Option ID = 27213]

Correct Answer :-

- Sūkaramaṃsa / सूकरमंस [Option ID = 27213]

58) After having attained Enlightenment and granted Brahmā Sahampati's request to preach the doctrine, who did the Buddha think of as being the fittest to hear the Buddhavaṇa?

बोधि-प्राप्ति तथा ब्रह्मा सहम्पति की धम्म-देसना की प्रार्थना स्वीकार करने के बाद, बुद्ध ने बुद्धवचन को सुनने के लिए सब से अधिक योग्य होने वाला किस के बारे में सोचा?

[Question ID = 14334]

1. Bhaggava / भग्गव [Option ID = 27335]
2. Uddaka Rāmaputta / उद्दक रामपुत्त [Option ID = 27333]
3. Ālāra Kālāma / आलार कालाम [Option ID = 27334]
4. Bharanḍu Kālāma / भरण्डु कालाम [Option ID = 27336]

Correct Answer :-

- Uddaka Rāmaputta / उद्दक रामपुत्त [Option ID = 27333]

59) Two yakṣas/yakkhas who the Buddha converted at Ṭankitamañca near Gayā were

वह दो यक्षों, जिन्हें बुद्ध ने गया के पास टंकितमंच पर दीक्षा दी थी, उनके नाम हैं

[Question ID = 14325]

1. Sūciloma and Khara / सूचीलोम व खर [Option ID = 27298]
2. Sūciloma and Huhuṅka / सूचीलोम व हुहुंक [Option ID = 27297]
3. Khara and Vessavaṇa / खर व वेस्सवण [Option ID = 27300]
4. Khara and Vajirapāṇi / खर व वजिरपाणि [Option ID = 27299]

Correct Answer :-

- Sūciloma and Huhuṅka / सूचीलोम व हुहुंक [Option ID = 27297]

60) The Cariyapīṭaka is a collection of how many tales?

चर्यपिटक कितनी कहानियों का संग्रह है?

[Question ID = 14331]

1. 39 / 39 [Option ID = 27323]
2. 35 / 35 [Option ID = 27322]
3. 40 / 40 [Option ID = 27324]
4. 24 / 24 [Option ID = 27321]

Correct Answer :-

- 24 / 24 [Option ID = 27321]

61) Which rule of the Vinaya prohibits drinking of intoxicants?

विनय के किस नियम के तहत, भिक्षुओं के लिए नशीले पदार्थों का सेवन मना है?

[Question ID = 14330]

1. Pacittiya 51 / पाचिच्चिय 51 [Option ID = 27320]
2. Pacittiya 31 / पाचिच्चिय 31 [Option ID = 27317]
3. Pacittiya 35 / पाचिच्चिय 35 [Option ID = 27318]
4. Pacittiya 37 / पाचिच्चिय 37 [Option ID = 27319]

Correct Answer :-

- Pacittiya 31 / पाचिच्चिय 31 [Option ID = 27317]

62) Famous monk translator Kumārajīva had studied at

विख्यात भिक्षु-अनुवादक कुमारजीव ने यहां शिक्षा ग्रहण की थी

[Question ID = 14295]

1. Kabul / काबुल [Option ID = 27178]
2. Takṣaśīlā / तक्षशिला [Option ID = 27180]
3. Gandhāra / गंधार [Option ID = 27179]
4. Kaśmīra / कश्मीर [Option ID = 27177]

Correct Answer :-

- Kaśmīra / कश्मीर [Option ID = 27177]

63) For how many years was Upāli the Vinayapāṃokkha?

उपालि कितने वर्षों तक विनयपामोख रहे?

[Question ID = 14280]

1. 12 [Option ID = 27120]
2. 16 [Option ID = 27119]
3. 24 [Option ID = 27118]
4. 30 [Option ID = 27117]

Correct Answer :-

- 30 [Option ID = 27117]

64) The Buddha's father's name was

बुद्ध के पिता का नाम क्या था?

[Question ID = 14293]

1. Pupphabuddha / पुफबुद्ध [Option ID = 27170]
2. Śuddhodana / शुद्धोदन [Option ID = 27172]
3. Devadatta / देवदत्त [Option ID = 27171]
4. Śākyarājā / शाक्यराजा [Option ID = 27169]

Correct Answer :-

- Śākyarājā / शाक्यराजा [Option ID = 27169]

65) How many *nipātas* <.> are there in the *Aṅguttara Nikāya*?

अंगुत्तरनिकाय में कितने निपात हैं?

[Question ID = 14320]

1. 11 / 11 [Option ID = 27279]
2. 10 / 10 [Option ID = 27278]
3. 12 / 12 [Option ID = 27280]
4. 9 / 9 [Option ID = 27277]

Correct Answer :-

- 9 / 9 [Option ID = 27277]

66) Which one of the following pairs is not correctly matched?

निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही नहीं है?

[Question ID = 14309]

1. Second Buddhist Council and Revata. / द्वितीय बौद्ध संगीति और रेवता। [Option ID = 27234]

2. First Buddhist Council and Mahākassapa. / प्रथम बौद्ध संगीति और महाकस्सप। [Option ID = 27233]
3. Third Buddhist Council and Moggaliputta Tissa. / तृतीय बौद्ध संगीति और मागलिपुत्ततिस्स। [Option ID = 27235]
4. Fourth Buddhist Council and Aśoka. / चतुर्थ बौद्ध संगीति और अशोक। [Option ID = 27236]

Correct Answer :-

- First Buddhist Council and Mahākassapa. / प्रथम बौद्ध संगीति और महाकस्सप। [Option ID = 27233]

67) The First Buddhist Council was held under the chairmanship of

प्रथम बौद्ध संगीति इनकी अध्यक्षता में हुई थी

[Question ID = 14310]

1. Mahāthera Revata / महाथेर रेवत [Option ID = 27237]
2. Moggaliputta-Tissa / मोग्गलिपुत्त-तिस्स [Option ID = 27239]
3. Mahākassapa / महाकस्सप [Option ID = 27238]
4. Aśvaghōṣa / अश्वघोष [Option ID = 27240]

Correct Answer :-

- Mahāthera Revata / महाथेर रेवत [Option ID = 27237]

68) The Kessaputtiyās, people of Kesaputta, were also known as

केसपुत्त के लोग, केसपुत्तिया, इस नाम से भी जाने जाते थे

[Question ID = 14335]

1. Vajjiputtakās / वज्जिपुत्तक [Option ID = 27338]
2. Kālāmas / कालाम [Option ID = 27340]
3. Sākyaputtiyas / साक्यपुत्तिय [Option ID = 27339]
4. Koliyas / कोलिय [Option ID = 27337]

Correct Answer :-

- Koliyas / कोलिय [Option ID = 27337]

69) King Ajātaśatru was the patron of this Buddhist Council

सम्राट अजातसत्रु इस बौद्ध संगीति के संरक्षक थे

[Question ID = 14311]

1. Second / द्वितीय [Option ID = 27242]
2. First / प्रथम [Option ID = 27241]
3. Third / तृतीय [Option ID = 27243]
4. Fourth / चतुर्थ [Option ID = 27244]

Correct Answer :-

- First / प्रथम [Option ID = 27241]

70) The famous site of Bagan is located in this country

बागान नामक प्रसिद्ध स्थल किस देश में स्थित है?

[Question ID = 14363]

1. Cambodia / कम्बोडिया [Option ID = 27451]
2. Indonesia / इण्डोनेसिया [Option ID = 27452]
3. Myanmar / म्यांमार [Option ID = 27449]
4. Thailand / थाइलैण्ड [Option ID = 27450]

Correct Answer :-

- Myanmar / म्यांमार [Option ID = 27449]

71) The famous site of Śalihundam is located in the province of

शालिहुण्डाम नामक प्रसिद्ध स्थल किस राज्य में स्थित है?

[Question ID = 14292]

1. Jharkhand / झारखण्ड [Option ID = 27168]
2. Andhra Pradesh / आंध्र प्रदेश [Option ID = 27166]
3. Chhatisgarh / छत्तीसगढ़ [Option ID = 27167]
4. Odisha / ओडिशा [Option ID = 27165]

Correct Answer :-

- Odisha / ओडिशा [Option ID = 27165]

72) The famous Tabo Gompa is located in the province of

प्रसिद्ध ताबो गोम्पा किस राज्य में स्थित है?

[Question ID = 14302]

1. Arunachal Pradesh / अरुणाचल प्रदेश [Option ID = 27206]
2. Sikkim / सिक्किम [Option ID = 27207]
3. Jammu & Kashmir / जम्मू-कश्मीर [Option ID = 27208]
4. Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश [Option ID = 27205]

Correct Answer :-

- Himachal Pradesh / हिमाचल प्रदेश [Option ID = 27205]

73) The Vassāvāsa rule introduced by the Buddha for the members of the Saṃgha should be taken as

संघ के सदस्यों के लिए बुद्ध के द्वारा बनाए गए वस्सावास के नियम को इस रूप में समझा जाना चाहिए

[Question ID = 15466]

1. Ecology-hostile / पर्यावरण से अमैत्रिक [Option ID = 31862]
2. Ecology-friendly / पर्यावरण से मैत्रिक [Option ID = 31864]
3. Partly ecology-friendly and partly ecology- hostile / पर्यावरण से कुछ मैत्रिक व कुछ अमैत्रिक [Option ID = 31861]
4. Neither ecology-friendly, nor ecology- hostile / न ही पर्यावरण से मैत्रिक व न ही अमैत्रिक [Option ID = 31863]

Correct Answer :-

- Partly ecology-friendly and partly ecology- hostile / पर्यावरण से कुछ मैत्रिक व कुछ अमैत्रिक [Option ID = 31861]

74) Who wrote the *Saundrānanda*?

सौंदरानंद किस महाकवि की रचना है?

[Question ID = 14371]

1. Buddhapālita / बुद्धपालित [Option ID = 27483]
2. Asaṅga / असंग [Option ID = 27484]
3. Nāgārjuna / नागार्जुन [Option ID = 27481]
4. Aśvaghōṣa / अश्वघोष [Option ID = 27482]

Correct Answer :-

- Nāgārjuna / नागार्जुन [Option ID = 27481]

75) According to Pāli-based Buddhism, which are three levels of bodhi?

पालि-आधारित बौद्ध धर्म के अनुसार, बोधि के तीन स्तर कौन से हैं?

[Question ID = 14327]

1. Sāvakabodhi, Paccekabodhi, Sammāsambodhi / सावकबोधि, पच्चेकबोधि, सम्मासम्बोधि [Option ID = 27308]
2. Putthujanabodhi, Sāvakabodhi, Bhikkhubodhi / पुथुजनबोधि, सावकबोधि, भिक्खुबोधि, [Option ID = 27306]
3. Bodhi, Sāvakabodhi, Paccekabodhi, / बोधि, सावकबोधि, पच्चेकबोधि, [Option ID = 27305]
4. Bodhi, Mahābodhi, Sambodhi / बोधि, महाबोधि, संबोधि, [Option ID = 27307]

Correct Answer :-

- Bodhi, Sāvakabodhi, Paccekabodhi, / बोधि, सावकबोधि, पच्चेकबोधि, [Option ID = 27305]

76) According to Xuanzang, where did King Harṣa organize a huge religious congregation?

शुएनज़ांग के अनुसार, राजा हर्ष ने एक विशाल धर्म सभा का आयोजन किस स्थान पर करवाया था?

[Question ID = 14370]

1. Puruṣapura / पुरुषपुर [Option ID = 27478]
2. Pāṭaliputra / पाटलिपुत्र [Option ID = 27479]
3. Prayāga / प्रयाग [Option ID = 27480]
4. Kanauja / कनौज [Option ID = 27477]

Correct Answer :-

- Kanauja / कनौज [Option ID = 27477]

77) According to the Pāli-based tradition, Aṅgulimāla became a notorious killer

पालि-आधारित परम्परानुसार, अंगुलिमाल एक कुख्यात हत्यारा इसलिए बना क्योंकि वह

[Question ID = 14303]

अपने गुरु की गुरुदक्षिणा पूरी करना चाहता था।

1. to fulfil a parting-gift (gurudakṣiṇā) to his teacher / [Option ID = 27209]

वह परवर्ती जीवन में विश्वास नहीं रखता था।

2. because he did not believe in afterlife / [Option ID = 27212]

3. because he believed that kamma had no fruition / वह सोचता था कि कम्म का कोई फल नहीं होता। [Option ID = 27211]

4. to do the bidding of his boss who was a gang leader /

अपने अगुआ, जो एक गिरोह का सरदार था, की आज्ञा का पालन कर रहा था।

[Option ID = 27210]

Correct Answer :-

अपने गुरु की गुरुदक्षिणा पूरी करना चाहता था।

- to fulfil a parting-gift (gurudakṣiṇā) to his teacher / [Option ID = 27209]

78) According to the Pātimokkha, the cutting of a tree leads to the offence of

पातिमोक्ख के अनुसार, पेड़ काटना निम्नलिखित अपराध माना जाता है

[Question ID = 14346]

1. Dukkata / दुक्कट [Option ID = 27382]

2. Pācittiya / पाचित्त्य [Option ID = 27383]

3. Pārājika / पाराजिक [Option ID = 27384]

4. Saṃghādisesa / संघादिसेस [Option ID = 27381]

Correct Answer :-

- Saṃghādisesa / संघादिसेस [Option ID = 27381]

79) According to the Dīpavaṃsa, during the intervening period between Upāli and Moggaliputta following were the Vinayapāmoḥas?

दीपवंस के अनुसार, उपालि और मोग्गलिपुत्त के बीच के अंतरकाल में निम्नलिखित विनयपामोख थे

[Question ID = 14353]

1. Dāsaka, Upagutta, Siggava / दासक, उपगुत्त, सिग्गव [Option ID = 27409]

2. Dāsaka, Sāṇavāsa, Siggava / दासक, साणवास, सिग्गव [Option ID = 27412]

3. Dāsaka, Soṇaka, Siggava / दासक, सोणक, सिग्गव [Option ID = 27411]

4. Kassapa, Soṇaka, Siggava / कस्सप, सोणक, सिग्गव [Option ID = 27410]

Correct Answer :-

- Dāsaka, Upagutta, Siggava / दासक, उपगुत्त, सिग्गव [Option ID = 27409]

80) According to the Dīpavaṃsa, Vinayapāṃokha Siggava was a contemporary of

दीपवंस के अनुसार, विनयपामोख सिग्गव इन में से किस के समकालीन थे?

[Question ID = 14348]

1. King Kaḷāsoka / राजा काळासोक [Option ID = 27389]
2. King Ajātasattu / राजा अजातसत्तु [Option ID = 27392]
3. King Dhammasoka / राजा धम्मसोक [Option ID = 27390]
4. King Candagutta / राजा चंदगुत्त [Option ID = 27391]

Correct Answer :-

- King Kaḷāsoka / राजा काळासोक [Option ID = 27389]

81) According to the Dīpavaṃsa, following prominent monks who had seen the Buddha, participated in the Second Buddhist Council

दीपवंस के अनुसार, निम्नलिखित विख्यात भिक्खुओं, जो बुद्ध के समकालीन थे, ने द्वितीय बौद्ध संगीति में भाग लिया था

[Question ID = 14344]

1. Revata, Sambhūta-Sāṇavāsī, Khujjasobhita, Anuruddhaka, Yasa-Kākaṇḍakaputta /
रेवत, सम्भूत-साणवासी, खुज्जसोभित, अनुरुधक, यस-काकण्डकपुत्त [Option ID = 27376]
2. Revata, Sambhūta-Sāṇavāsī, Khujjasobhita, Sabbakāmī, Yasa-Kākaṇḍakaputta /
रेवत, सम्भूत-साणवासी, खुज्जसोभित, सब्बकामी, यस-काकण्डकपुत्त [Option ID = 27375]
3. Revata, Sambhūta-Sāṇavāsī, Kasi-Bhāradvāja, Sabbakāmī, Yasa-Kākaṇḍakaputta /
रेवत, सम्भूत-साणवासी, कसि-भारद्वाज, सब्बकामी, यस-काकण्डकपुत्त [Option ID = 27374]
4. Revata, Siggava, Khujjasobhita, Sabbakāmī, Yasa-Kākaṇḍakaputta /
रेवत, सिग्गव, खुज्जसोभित, सब्बकामी, यस-काकण्डकपुत्त [Option ID = 27373]

Correct Answer :-

- Revata, Siggava, Khujjasobhita, Sabbakāmī, Yasa-Kākaṇḍakaputta /
रेवत, सिग्गव, खुज्जसोभित, सब्बकामी, यस-काकण्डकपुत्त [Option ID = 27373]

82) According to the Mahāparinibbāna Suttanata, those devotees who die while doing the pilgrimage to the shrines associated with the Buddha with a devout heart are rewarded after death with

महापरिनिब्बान सुत्तंत के अनुसार, जिन श्रद्धालु लोगों की मृत्यु बुद्ध से सम्बन्धित तीर्थ स्थलों की यात्रा के दौरान होती है, वे मृत्यु के बाद

[Question ID = 14287]

1. rebirth in a royal family / राज परिवार में जन्म लेते हैं। [Option ID = 27145]
2. rebirth in a devaloka / देवलोक में जन्म लेते हैं। [Option ID = 27148]
3. rebirth in a brāhmaṇa family / ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं। [Option ID = 27146]

4. rebirth in a spiritually inclined family / अध्यात्मिकता की ओर झुके परिवार में जन्म लेते हैं। [Option ID = 27147]

Correct Answer :-

- rebirth in a royal family / राज परिवार में जन्म लेते हैं। [Option ID = 27145]

83) According to the Dīgha Nikāya, after death King Bimbisāra was reborn in

दीघनिकाय के अनुसार, मृत्यु के पश्चात विम्बिसार का पुनर्जन्म यहां हुआ था

[Question ID = 14326]

1. Brahmalo / ब्रह्मलोक [Option ID = 27304]
2. Tāvatiṃsa / तावतिंस [Option ID = 27303]
3. Tusita / तुसित [Option ID = 27301]
4. Deva realm of Cātummahārājikā / चतुमहाराजिका नामक देवलोक [Option ID = 27302]

Correct Answer :-

- Tusita / तुसित [Option ID = 27301]

84) According to the Dīpavaṃsa, who became the first Vinayapāṃokkha after the Mahāparinibbāna?

दीपवंस के अनुसार, महापरिनिर्वाण के पश्चात पहला विनयपामोक्ख कौन बना था?

[Question ID = 14328]

1. Upāli / उपालि [Option ID = 27312]
2. Siggava / सिग्गव [Option ID = 27309]
3. Candavajji / चंदवज्जि [Option ID = 27311]
4. Soṇaka / सोणक [Option ID = 27310]

Correct Answer :-

- Siggava / सिग्गव [Option ID = 27309]

85) According to the Paramattha-dīpanī, Aṅgulimāla was originally named

परमत्थ-दीपनी के अनुसार, अंगुलिमाल का आरम्भिक नाम

[Question ID = 14349]

1. Jālinīvāsī which was later changed to Araññāvāsī. /

जालिनीवासी था जो बाद में अरञ्जवासी में तबदील कर दिया गया था।

[Option ID = 27395]

2. Hiṃsaka which was later changed to Ahiṃsaka. / हिंसक था जो बाद में अहिंसक में तबदील कर दिया गया था। [Option ID = 27393]

अहिंसक था जो बाद में हिंसक में तबदील कर दिया गया था।

3. Ahiṃsaka which was later changed to Hiṃsaka. / [Option ID = 27394]

4. Daḷḍidaparisa which was later changed to Dhammagavesī. /

दळिदपरिस था जो बाद में धम्मगवेसी में तबदील कर दिया गया था।

[Option ID = 27396]

Correct Answer :-

- Himṣaka which was later changed to Ahimṣaka. / हिंसक था जो बाद में अहिंसक में तबदील कर दिया गया था। [Option ID = 27393]

86) According to some of the Jātaka stories, Vāsudeva and Baladeva alongwith their eight brothers, who were the nephews of King Kaṃsa, after conquering Jambudīpa, made this city their capital

कुछ जातक कहानियों के अनुसार, वासुदेव व बलदेव ने अपने दस भाइयों समेत, जो राजा कंस के भांजे थे, जम्बुदीप पर विजय प्राप्ति के बाद इस नगर को अपनी राजधानी बनाया

[Question ID = 14337]

1. Dvāravati / द्वारवती [Option ID = 27348]
2. Ayodhyā / अयोध्या [Option ID = 27347]
3. Mathurā / मथुरा [Option ID = 27345]
4. Gokulapurī / गोकुलपुरी [Option ID = 27346]

Correct Answer :-

- Mathurā / मथुरा [Option ID = 27345]

87) According to some of the Jātaka stories, the ten brothers including Vāsudeva, Baladeva, Ajjuna, and Sūriyadeva, nephews of King Kaṃsa, are known as

कुछ जातक कहानियों के अनुसार, दस भाइयों, जिन में से कुछ के नाम वासुदेव, बलदेव, अज्जुन, व सुर्यदेव हैं, और जो राजा कंस के भांजे थे, को इस नाम से भी जाना जाता है

[Question ID = 14336]

1. Yādavakulaputtas / यादवकुलपुत्र [Option ID = 27343]
2. Devakīputtas / देवकीपुत्र [Option ID = 27344]
3. Andhakaveṇḥudāsaputta / अंधकवेणहुदासपुत्र [Option ID = 27341]
4. Gokulavāsīputtas / गोकुलवासीपुत्र [Option ID = 27342]

Correct Answer :-

- Andhakaveṇḥudāsaputta / अंधकवेणहुदासपुत्र [Option ID = 27341]

88) Bodhisatta Vessantara was born in the city of

बोधिसत्त वेस्संतर का जन्म इस नगर में हुआ था।

[Question ID = 14307]

1. Campā / चम्पा [Option ID = 27225]
2. Bārāṇasī / बाराणसी [Option ID = 27226]
3. Jetuttara / जेतुत्तर [Option ID = 27228]
4. Indapaṭṭa / इन्दपट्ट [Option ID = 27227]

Correct Answer :-

- Campā / चम्पा [Option ID = 27225]

89) Ānāpānasati is the mindfulness of

आनापानसति इस की सचेतना है

[Question ID = 14318]

1. Completing the Vipassanā Course / विपस्सना के कोर्स को पूरा करना [Option ID = 27272]
2. breaking of silence (mauna) / मौन तोड़ना [Option ID = 27270]
3. breaking of fast / व्रत तोड़ना [Option ID = 27271]
4. in and out breathing / सांस का अंदर-बाहर जाना [Option ID = 27269]

Correct Answer :-

- in and out breathing / सांस का अंदर-बाहर जाना [Option ID = 27269]

90) According to Pāli texts, Ajātasattu built a vihāra for Devadatta here

पालि ग्रंथों के अनुसार, अजातसत्तु ने देवदत्त के लिए विहार कहाँ बनवाया था?

[Question ID = 14285]

1. Rājagaha / राजगह [Option ID = 27138]
2. Sāvattthī / सावत्थी [Option ID = 27139]
3. Tāmralitti / ताम्रलित्ति [Option ID = 27140]
4. Gayāsīsa / गयासीस [Option ID = 27137]

Correct Answer :-

- Gayāsīsa / गयासीस [Option ID = 27137]

91) According to the Dīpavaṃsa, in which year of reign of King Kāḷāsoka, did the Second Buddhist Council take place?

दीपवंस के अनुसार, काळासोक के राज्यकाल के किस वर्ष में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी?

[Question ID = 14352]

1. 11th / ग्यारहवां [Option ID = 27407]
2. 9th / नवां [Option ID = 27406]
3. 7th / सातवां [Option ID = 27405]
4. 13th / तेरहवां [Option ID = 27408]

Correct Answer :-

- 7th / सातवां [Option ID = 27405]

92) According to Xuanzang, which king had built a stūpa in honor of the Buddha's son, Rāhula, to be particularly worshipped by novices?

शुएनजांग के अनुसार, किस राजा ने बुद्ध के पुत्र राहुल की स्मृति में विशेषकर नवदीक्षितों की पूजा के लिए यह स्तूप बनवाया था?

[Question ID = 14290]

1. Bimbisāra / बिम्बिसार [Option ID = 27158]
2. Pasenadi / पसेनदि [Option ID = 27160]
3. Ajātaśatru / अजातशत्रु [Option ID = 27159]
4. Aśoka / अशोक [Option ID = 27157]

Correct Answer :-

- Aśoka / अशोक [Option ID = 27157]

93) According to some Pāli texts, the name of Siddhattha Gotama's wife was

कुछ पालि ग्रंथों के अनुसार, सिद्धत्थ गोतम की पत्नी का नाम था

[Question ID = 14286]

1. Sulocanā / सुलोचना [Option ID = 27141]
2. Bhaddakaccānā / भद्रकच्चाना [Option ID = 27144]
3. Cellanā / चेलना [Option ID = 27142]
4. Pātācāra / पाटाचारा [Option ID = 27143]

Correct Answer :-

- Sulocanā / सुलोचना [Option ID = 27141]

94) According to some of the Jātaka stories, Kuru King Dhanañjaya Koravya of the Yudhiṭṭhila *gotra* ruled from

कुछ जातक कहानियों के अनुसार, युदिट्टिल गोत्र के कुरु राजा, धनंजय कोरव्य, यहां से राज करते थे

[Question ID = 14340]

1. Hastināpura / हस्तिनापुर [Option ID = 27358]
2. Dvāravatī / द्वारवती [Option ID = 27360]
3. Indapaṭṭa / इंदपट्ट [Option ID = 27359]
4. Mathurā / मथुरा [Option ID = 27357]

Correct Answer :-

- Mathurā / मथुरा [Option ID = 27357]

95) According to some of the Jātaka stories, the people of Kuru kingdom of Indapaṭṭa were prosperous and happy because they practised

कुछ जातक कहानियों के अनुसार, कुरु राज्य के लोग इसलिए खुशहाल व सुखी थे क्योंकि वे इस का पालन करते थे

[Question ID = 14341]

1. international business / अंतरराष्ट्रीय वाणिज्य [Option ID = 27363]
2. robbery and theft / डकैती व चोरी [Option ID = 27362]
3. isolation / एकांत [Option ID = 27364]
4. Kurudhamma / कुरुधम्म [Option ID = 27361]

Correct Answer :-

- Kurudhamma / कुरुधम्म [Option ID = 27361]

96) Name the person who offered eight handfuls of grass to Siddhattha Gotama on the bank of river Nirāñjarā

उस व्यक्ति का नाम बताएं जिस ने सिद्धत्थ गोतम को निरंजरा नदी के किनारे आठ मुट्टी घास दिया था

[Question ID = 14351]

1. Tapassu / तपस्सु [Option ID = 27401]
2. Bhallika / भल्लिक [Option ID = 27404]
3. Sotthiya / सोत्थिय [Option ID = 27403]
4. Punna / पुन्न [Option ID = 27402]

Correct Answer :-

- Tapassu / तपस्सु [Option ID = 27401]

97) Moggaliputtatissathera is associated with the

मोग्गलिपुत्तत्तिससथेर सम्बन्धित हैं

[Question ID = 15465]

1. First Buddhist Council / प्रथम बौद्ध संगीति से [Option ID = 31857]
2. Second Buddhist Council / द्वितीय बौद्ध संगीति से [Option ID = 31858]
3. Third Buddhist Council / तृतीय बौद्ध संगीति से [Option ID = 31859]
4. Fourth Buddhist Council / चतुर्थ बौद्ध संगीति से [Option ID = 31860]

Correct Answer :-

- First Buddhist Council / प्रथम बौद्ध संगीति से [Option ID = 31857]

98) It is said that Ānanda became a *sotāpanna* after hearing a discourse from

कहा जाता है कि इन का प्रवचन सुन कर आनंद ने सोतापन्न की प्राप्ति की थी।

[Question ID = 14361]

1. Sāriputta / सारीपुत्त [Option ID = 27443]
2. Moggallāna / मोग्गलान [Option ID = 27444]
3. Puñña Mantāniputta / पुञ्ज मंतानिपुत्त [Option ID = 27441]
4. The Buddha / बुद्ध [Option ID = 27442]

Correct Answer :-

- Puñña Mantāniputta / पुञ्ज मंतानिपुत्त [Option ID = 27441]

99) The first Indian monk who introduced Buddhism in China was

वह भिक्षु जो बौद्ध धर्म को चीन लाया था उस का नाम था

[Question ID = 14278]

1. Kāśyapa Mātāṅga / काश्यप मातंग [Option ID = 27109]
2. Saṅghabhadra / संघभद्र [Option ID = 27111]
3. Parmārtha / परमार्थ [Option ID = 27110]
4. Kumārajīva / कुमारजीव [Option ID = 27112]

Correct Answer :-

- Kāśyapa Mātāṅga / काश्यप मातंग [Option ID = 27109]

100) The *Kaliṅgabodhi Jātaka* mentions the spot where the Buddha had attained bodhi (enlightenment) as

जिस जगह पर बुद्ध ने बोधि प्राप्त की थी, कलिङ्गबोधि जातक ने उसे क्या कहा है?

[Question ID = 15464]

1. Mahābodhi / महाबोधी [Option ID = 31854]
2. Bodhimaṇḍa / बोधिमण्ड [Option ID = 31853]
3. Bodhighara / बोधिघर [Option ID = 31856]
4. Vajrāsana / वज्रासन [Option ID = 31855]

Correct Answer :-

- Bodhimaṇḍa / बोधिमण्ड [Option ID = 31853]